

आजजब पूरा विश्व कोविड-19 से लड़ रहा है, तो मैं इस महामारी से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति से अपना ऐक्य व्यक्त करना चाहूँगा। मैं विशेष रूप से हमारे सहयोगियों, हमारे क्लायंट्स, हमारे आपूर्तिकर्ताओं और उन सभी के बारे में सोच रहा हूँ, जिनके साथ परिस्थिति के बेहतर होते ही हमारी फिर से काम करने की आकांक्षा है।

मैं स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अपना सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनकी शामिलगिरी, उनकी समर्पितता के प्रति सम्मान दर्शाते हुए, हम सभी को व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से इस वाइरस के खिलाफ की लड़ाई में ज़िम्मेदारीभरा व्यवहार करना होगा। यह करने के लिए, AKWEL ग्रुप ने सभी की श्रेष्ठ सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस असाधारण परिस्थिति के लिए सबसे अधिक अनुकूल कदम उठाए हैं और उठाता रहेगा।

AKWEL के कर्मचारियों को मैं अपने समर्थन के बारे में आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं आपकी चिंताओं, कई बार आपकी मुश्किलों को, और दुर्भाग्यवश आपमें से कुछ लोग जिस दुःखद स्थिति से गुज़र रहे हैं उसे जानता हूँ। लेकिन मैं पहले और अब आपकी हिम्मत और आपकी प्रतिबद्धता से परिचित हूँ, आपात स्थिति से निपटने की और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने की। मैं जानता हूँ कि साथ मिल कर हम सामना कर लेंगे।

अपना और अपने अपनों का ध्यान रखें, और हम जल्द ही मिलेंगे।

Mathieu Coutier (माथिओ कुतिए)

Président du Directoire (बोर्ड अध्यक्ष)

